

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		अवतू	सित	अवतू		अवतू	सित	अवतू
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
विस्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)								
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	43.04	3.31	4.08	3.59	259206893	21422005	23840258	25730864
1.1.1 आउटराइट	16.80	1.26	1.57	1.69	170464587	13902085	14750412	16664120
1.1.1.1 त्रि-पक्षीय रेपो	9.51	0.66	0.99	1.04	13463848	889349	1468346	1626397
1.1.1.2 रेपो	4.94	0.40	0.37	0.41	76718788	5760793	6038102	6573748
1.1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.35	0.20	0.21	0.23	80281951	7251944	7243965	8463975
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	24.92	1.96	2.40	1.74	80984671	7018310	8415273	8046345
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.31	0.10	0.11	0.16	7757636	501610	674573	1020399
बी. भुगतान प्रणाली								
I विस्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2700.16	224.62	233.33	267.92	170886670	13464400	17786483	17070975
1.1 ग्राहक लेनदेन	2686.04	223.48	232.21	266.69	152406168	11899324	16027655	15418778
1.2 अलबैंक लेनदेन	14.12	1.14	1.12	1.23	18480503	1565076	1758828	1652197
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	1486106.89	128356.32	166626.30	185187.17	67542859	5667254	6384754	7358283
2.1 ईपीएस (निधि अंतरण) @	3.92	0.31	0.30	0.31	261	20	14	17
2.2 एपीबीएस \$	25888.17	1745.79	2342.41	4021.91	390743	19666	35550	69157
2.3 आईएमपीएस \$	60053.35	4928.80	4299.36	4668.23	6495652	538239	565233	629382
2.4 एनएसीएच जमा \$	16227.27	1278.99	1657.93	1463.68	1525104	131546	122079	157479
2.5 एनईएफटी	72639.50	6314.53	7908.83	9183.38	39136014	3262015	3597885	4152428
2.6 यूपीआई @	1311294.68	114087.90	150417.47	165849.66	19995086	1715768	2063995	2349821
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	26.19	2.63	1.31	1.64	352	38	14	18
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	18249.53	1499.66	1805.36	1871.73	1687658	139050	180707	189818
3.1 भीम आधार पे @	193.59	15.14	18.81	24.54	6112	525	568	773
3.2 एनएसीएच नामे \$	16426.49	1348.29	1651.69	1710.21	1678769	138287	179945	188844
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1629.45	136.23	134.86	136.98	2777	238	193	202
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	58469.79	5104.71	5275.26	5774.01	2423563	230670	216304	248709
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	35610.15	3200.48	3921.62	4332.14	1831134	178569	176202	201789
4.1.1 पीओएस आधारित \$	18614.08	1596.74	1978.05	2196.73	651911	57774	60857	79293
4.1.2 अन्य \$	16996.08	1603.73	1943.57	2135.41	1179223	120795	115345	122496
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	22859.64	1904.23	1353.64	1441.87	592429	52101	40102	46920
4.2.1 पीओएस आधारित \$	16477.95	1375.28	995.07	1063.87	393589	33731	25777	32182
4.2.2 अन्य \$	6381.69	528.95	358.58	378.00	198840	18370	14324	14738
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	78775.40	6687.84	5476.69	5977.88	283048	25012	17489	20419
5.1 वालेट	63256.69	5329.32	4054.95	4425.20	234353	20649	11889	13074
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15518.71	1358.52	1421.74	1552.68	48695	4362	5600	7345
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8429.87	735.65	721.65	718.88	11247	872	858	981
5.2.2 अन्य \$	7088.84	622.87	700.09	833.81	37447	3490	4743	6365
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6632.10	559.90	484.94	546.98	7212333	584454	543387	624057
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6632.10	559.90	484.94	546.98	7212333	584454	543387	624057
6.2 अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1648233.71	142208.43	179668.57	199357.77	79149461	6646440	7342641	8441287
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1650933.88	142433.05	179901.90	199625.69	250036131	20110841	25129124	25512262
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1644301.78	141873.15	179416.96	199078.71	242823799	19526387	24585737	24888205

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		अवतू	सितं	अवतू		अवतू	सितं	अवतू
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1252599.21	109334.05	143577.22	156523.15	30687088	2619086	3164355	3568090
1.1 अंतर्बैंक \$	83000.56	6877.68	9082.11	9560.14	5676805	474253	601793	667326
1.2 अंतर-बैंक \$	1169598.65	102456.37	134495.11	146963.01	25010283	2144833	2562562	2900764
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउजर आधारित) @ (2.1 से 2.2)	45034.98	3736.00	3847.73	4190.45	102117736	8464802	10092959	10129153
2.1 अंतर्बैंक @	12033.28	983.50	1101.62	1149.60	53247042	4400612	5123573	4971326
2.2 अंतर-बैंक @	33001.71	2752.51	2746.11	3040.85	48870694	4064190	4969386	5157826
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	66440.72	5721.32	4949.81	5545.14	3259388	277832	245223	285511
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	95.80	8.54	8.02	8.32	4648	413	417	444
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	66001.01	5683.38	4922.18	5515.33	3241538	276289	243930	284081
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	343.90	29.40	19.62	21.49	13202	1130	876	985
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	15.18	0.85	0.27	0.29	148	8	3	3
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	15.06	0.84	0.25	0.28	147	8	3	3
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.12	0.01	0.01	0.01	1	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11754.95	986.49	975.12	1227.30	314003	25378	23389	31480
5.1 एईपीएस @	11754.95	986.49	975.12	1227.30	314003	25378	23389	31480

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2024	2023	2024	
	तक	अकू	सितं	अकू
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	10667.22	10748.82	10968.21	11053.03
1.1 क्रेडिट कार्ड	1018.03	947.11	1061.03	1068.90
1.2 डेबिट कार्ड	9649.19	9801.71	9907.18	9984.13
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	16743.63	16830.82	15339.88	15503.27
2.1 वालेट @	13381.80	13668.03	11381.79	11439.31
2.2 कार्ड @	3361.82	3162.79	3958.09	4063.95
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.58	2.58	2.55	2.56
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.23	2.23	2.20	2.21
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.35	0.35	0.35	0.35
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	17.55	15.30	14.45	14.43
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	89.03	83.48	93.43	95.09
6 भारत क्यूआर @	62.50	59.75	64.16	64.31
7 यूपीआई क्यूआर *	3434.93	3017.20	6069.95	6167.67

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंको, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं।
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अन्तिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वितीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारम्भ में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सचेंज कार्ड / वालेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग II-ए. निम्नलिखित प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग II-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5. दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वालेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन घिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एनआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वितीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।